

## CLASS -III HINDI II

### पाठ-14 चाँद का हठ

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

प्र०-1 माँ ने चाँद की बात का क्या उत्तर दिया ?

उ०-माँ ने कहा-" तू एक नाप में नहीं रहता है इसलिए किस नाप का कुर्ता सलवाऊँ।"

प्र०-2 चाँद माँ से किस चीज़ के लिए हठ करता है ?

उ०-चाँद माँ से कुर्ता (झिंगोला) सिलवाने की ज़िद करता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

प्र०-1 चाँद किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करता है ?

उ०-चाँद रात की ठंडी हवा में ठिठुर-ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता है।

प्र०-2 माँ चाँद का कुरता क्यों नहीं सिलवा पाती ?

उ०-माँ चाँद के प्रति दिन आकार बदलने के कारण उसका कुर्ता नहीं सिलवा पाती है।

प्र०-3 अंत में चाँद की माँ ने क्या उपाय सोचा?

उ०- अंत में चाँद की माँ ने उसके लिए एक झिंगोला (ढीला-ढाला वस्त्र) सिलवाने का उपाय सोचा।

### पाठ-15. अब हम दोस्त हैं

प्र०-1 हाथी झील पर क्या करने गया था ?

उ०-हाथी झील पर पानी पीने गया था।

प्र०-2 झील में कैसे मेंढक रहते थे ?

उ०-झील में ज़हरीले डार्ट मेंढक रहते थे।

प्र०-3 मेंढक क्यों उदास हो गया ?

उ०-हाथी ने दोस्ती करने से मना कर दिया था इसीलिए मेंढक उदास हो गया था।

प्र०-4 झील में और कौन रहता था ?

उ०- झील में मेंढक के अलावा घड़ियाल भी रहता था।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

प्र०-1 हाथी ने मेंढक से दोस्ती क्यों नहीं की ?

उ०-हाथी ने मेंढक से दोस्ती करने से मना कर दिया क्योंकि मेंढक खतरनाक और ज़हरीले थे और हाथी को ऐसे जानवरों से डर लगता था।

प्र०-2 मेंढक ने हाथी की रक्षा कैसे की ?

उ०- मेंढक ने घड़ियाल से कहा-"खबरदार, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारी कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में ही तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ़ कभी आंख उठाकर भी मत देखना।"इस तरह उसने हाथी की रक्षा की।

प्र०-3 हाथी और मेंढक में दोस्ती कैसे हो गई ?

उ०-जब मेंढक ने घड़ियाल से हाथी की रक्षा की तो इस बात से प्रभावित होकर हाथी ने मेंढक से दोस्ती कर ली।

### पाठ-16 लालच का फल

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

प्र०-1 मछुआरा कहाँ रहता था ?

उ०-मछुआरा नदी के तट पर रहता था।

प्र०-2 मछली कहाँ फँसी थी ?

उ०-मछली एक छोटे से गड्ढे में फँसी थी।

प्र०-3 मछुआरे ने मछली को कहाँ डाल दिया ?

उ०-मछुआरे ने मछली को गड्ढे से निकालकर नदी में डाल दिया।

प्र०-4 मछुआरे ने मछली से सबसे पहले क्या माँगा ?

उ०-मछुआरे ने मछली से सबसे पहले घर, धन एवं पुत्र माँगा।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

प्र०-1 मछुआरा अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करता था ?

उ०- मछुआरा अपने परिवार का पालन-पोषण मछलियाँ बेचकर करता था।

प्र०-2 मछुआरे की पत्नी की क्या-क्या इच्छाएँ थीं ?

उ०-मछुआरे की पत्नी की अनेक इच्छाएँ थी-घर, धन एवं पुत्र प्राप्ति की और राजरानी बनने की आदि।

प्र०-3 सारी घटना सुनकर मछुआरिन ने क्या कहा ?

उ०-सारी घटना सुनकर मछुआरिन ने कहा-"वह मछली अवश्य कोई देवी है। तुम उससे अपने लिए घर, धन एवं पुत्र का वरदान माग लो।"

प्र०-4 अधिक लालच का क्या परिणाम होता है ?

उ०-अधिक लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।